

M.A. Part-II (Economics) (Semester-III) Examination

ECONOMICS

Group-B : Financial Institutions and Markets

Paper-II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

- Note :—** (1) Attempt **ALL FIVE** questions.
(2) All questions carry equal marks.

1. What is meant by finance ? State the functions of finance and explain its role in economic development. 16

OR

Draw and explain the structure of financial system in India. State its role in economic development.

2. (a) Explain the objectives of monetary policy. 4
(b) State any two functions of Central Bank. 4
(c) Explain natural rate and real rate of interest. 4
(d) Explain cash reserve ratio's impact on credit control. 4

OR

- (e) Why are interest rates regulated in India ? 4
(f) What is meant by administrated interest rate ? 4
(g) Explain the role of central bank in economy. 4
(h) Explain effectiveness of monetary policy in developing countries. 4
3. Explain the definition of development bank and state the functions and role for economic development. 16

OR

Explain the credit creation of Commercial Bank. State limitations of credit creation. 16

4. (a) Explain 'financial sector reforms in India'. 4
(b) State the functions of SEBI. 4
(c) Explain role of non banking financial institutions in financial market. 4
(d) Explain new trends in Indian banking sector. 4

OR

- (e) Explain the structure of SEBI. 4
(f) Explain the function of IRDA (Insurance Regulatory and Development Authority) 4
(g) Explain reforms in banking sector of India. 4
(h) Which types of measures are taken to control non banking financial institutions operations ? 4
5. (a) Explain the role of money markets in India's economic development. 4
(b) State the components of capital market. 4
(c) What is commercial bill market ? 4
(d) Explain the functions of World Bank. 4

OR

- (e) Explain the role of Asian Development Bank in Indian economic development. 4
(f) State the components of money market. 4
(g) Explain the mutual funds role in present scenario. 4
(h) Explain 'Government Securities Market'. 4

M.A. Part-II (Economics) (Semester-III) Examination
ECONOMICS
Group-B : Financial Institutions and Markets
Paper-II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(मराठी माध्यम)

सूचना :— (1) सर्व पाच प्रश्न सोडवा.

(2) सर्व प्रश्नांना समान गुण आहेत.

1. वित्ताचा अर्थ काय आहे ? वित्ताची कार्ये सांगून आर्थिक विकासातील भूमिका स्पष्ट करा. 16
किंवा
भारताच्या वित्तीय पद्धतीच्या संरचनाचे रेखाचित्र स्पष्ट करून, त्याचे आर्थिक विकासातील भूमिका सांगा. 16
2. (अ) मौद्रिक धोरणाची उद्दिष्टे स्पष्ट करा. 4
(ब) केंद्रीय अधिकोषाची कोणतीही दोन कार्ये सांगा. 4
(क) व्याजाचा नैसर्गिक दर आणि वास्तवीक दर स्पष्ट करा. 4
(ड) प्रत्येक नियंत्रणाकरिता 'रोख' 'राखीव' 'निधीचे' परिणाम स्पष्ट करा. 4
किंवा
(इ) भारतामध्ये व्याजदराचे नियंत्रण का केले जाते ? 4
(फ) प्रशासित व्याजदर म्हणजे काय ? 4
(ग) अर्थव्यवस्थेमध्ये केंद्रीय अधिकोषाची भूमिका स्पष्ट करा. 4
(ह) विकसनशिल देशात मौद्रिक धोरणाची परिणामकारकता स्पष्ट करा. 4
3. विकास अधिकोषाची व्याख्या स्पष्ट करून त्याची कार्ये आणि आर्थिक विकासातील भूमिका सांगा. 16
किंवा
व्यापारी अधिकोषाची प्रत्यक्ष निर्मिती स्पष्ट करा, प्रत्यक्ष निर्मितीच्या नवीन सांगा. 16
4. (अ) 'भारताच्या वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा' स्पष्ट करा. 4
(ब) सेबी (SEBI) ची कार्ये सांगा. 4
(क) वित्तीय बाजारात गैर-अधिकोषीय वित्तीय संस्थांची भूमिका स्पष्ट करा. 4
(ड) भारताच्या अधिकोषण क्षेत्रातील नवीन प्रवृत्ती स्पष्ट करा. 4
किंवा
(इ) सेबी (SEBI) ची संरचना स्पष्ट करा. 4
(फ) IRDA ची कार्ये स्पष्ट करा. 4
(ग) भारताच्या अधिकोषण क्षेत्रातील सुधारणा स्पष्ट करा. 4
(ह) गैर अधिकोषीय वित्तीय संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणते उपाय योजले जातात ? 4
5. (अ) भारताच्या आर्थिक विकासात मुद्रा बाजाराची भूमिका स्पष्ट करा. 4
(ब) भांडवली बाजाराचे घटक सांगा. 4
(क) हुडी बाजार म्हणजे काय ? 4
(ड) जागतिक अधिकोषणी कार्ये स्पष्ट करा. 4
किंवा
(इ) भारताच्या आर्थिक विकासात अशियाई विकास अधिकोषाची भूमिका स्पष्ट करा. 4
(फ) मुद्रा बाजाराचे घटक सांगा. 4
(ग) वर्तमान स्थितीत म्युच्युअल फंडांची भूमिका स्पष्ट करा. 4
(ह) 'सरकारी रोखे बाजार' स्पष्ट करा. 4

M.A. Part-II (Economics) (Semester-III) Examination
ECONOMICS
Group-B : Financial Institutions and Markets
Paper-II

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 80

(हिन्दी माध्यम)

सूचना :— (1) सभी पांच प्रश्न हल कीजिये ।

(2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।

1. वित्त का क्या आशय है ? वित्त के कार्य बताकर आर्थिक विकास में भूमिका विशद कीजिए । 16

अथवा

भारत के वित्तीय प्रणाली के संरचना के रेखाचित्र का स्पष्टीकरण कीजिये । उसकी आर्थिक विकास में भूमिका विशद कीजिए । 16

2. (अ) मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को विशद कीजिए । 4

(ब) मध्यवर्ती बैंक के कोई भी दो कार्य बताइए । 4

(क) ब्याज की नैसर्गिक दर एवं वास्तविक दर विशद कीजिए । 4

(ड) साख नियंत्रण के लिये 'रोख राखीव कोष' का प्रभाव विशद कीजिए । 4

अथवा

(इ) भारत में ब्याजदरों का नियमन क्यों किया जाता है ? 4

(फ) प्रशासित ब्याजदर का क्या आशय है ? 4

(ग) अर्थव्यवस्था में मध्यवर्ती बैंक की भूमिका विशद कीजिए । 4

(ह) विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता विशद कीजिए । 4

3. विकास बैंक की परिभाषा देकर उसके कार्य और आर्थिक विकास में भूमिका बताइए । 16

अथवा

वाणिज्य बैंक की साख निर्मिती विशद कीजिए । साख निर्मिती की मर्यादायें दीजिए । 16

4. (अ) 'भारत के वित्तीय क्षेत्र में सुधार' विशद कीजिए । 4

(ब) सेबी (SEBI) के कार्य बताइए । 4

(क) वित्तीय विपणी में अधिकोपेत्तर वित्तीय संस्थाओं की भूमिका विशद कीजिए । 4

(ड) भारत के अधिकोपेत्तर क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों को विशद कीजिए । 4

अथवा

(इ) सेबी (SEBI) की संरचना स्पष्ट कीजिये । 4

(फ) IRDA के कार्य स्पष्ट कीजिये । 4

(ग) भारत के बैंक क्षेत्र के सुधार विशद कीजिए । 4

(ह) अधिकोपेत्तर वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने हेतु कौन से उपाय किए जाते हैं ? 4

5. (अ) भारत के आर्थिक विकास में मुद्रा बाजार की भूमिका विशद कीजिए । 4

(ब) पूंजी विपणी के कारक बताइए । 4

(क) विपत्र विपणी का क्या आशय है ? 4

(ड) जागतीक बैंक के कार्यों को विशद कीजिये । 4

अथवा

(इ) भारत के आर्थिक विकास में आशियाई विकास बैंक की भूमिका विशद कीजिए । 4

(फ) मुद्रा विपणी के कारक बताइए । 4

(ग) आज के स्थिती में म्युच्युअल फंड (कोष) की भूमिका को विशद कीजिए । 4

(ह) 'सरकारी विपत्र' बाजार' (Government Security Market) विशद कीजिए । 4

